

महोबा प्रतिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कबरई की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए अभियुक्त को किया गिरफ्तार, मौंके पर अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा/कारतूस व भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण हुये बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्र निर्माण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 31.10.2022 को प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम उ०नि० यज्ञनारायण भार्गव व उ०नि० यशवन्त सिंह द्वारा 01 नफर अभियुक्त रामबाबू लोहार पुत्र कुंवर लोहार उम्र करीब 42 वर्ष को ग्राम लिलवाही से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद अदबना तमंचा 12 बोर एवं तमंचा बनाने का अन्य उपकरण बरामद हुया ।गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 325/2022 धारा 3/5/25 ए एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायलय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया।

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 315 बोर चालू हालत में 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एक अदद अधबना तमन्चा 12 बोर व एक प्लास्टिक की बोरी में शस्त्र बनाने के उपकरण आग झोखने कापंखा 1 अदद, लोहे का ठीहा 01 अदद करीब 10 किग्रा0 ,दाब मशीन 01 अदद, हथौड़ी छोटी 01 अदद ,हथौड़ा बड़ा 01 अदद ,आरी मय ब्लेड 01 अदद ,आरी ब्लेड 01 अदद, स्प्रिंग 02 अदद, रेती 01 अदद, सड़सी 02 अदद, छेनी 01 अदद, प्लास 01 अदद, सुम्मी 01 अदद, चूड़ी कसने की मशीन 01 अदद, 1 बंड़ल तार करीब 100 ग्राम, नाल लोहा छोटा बड़ा 315 बोर 06 अदद, नाल लोहा 12 बोर 01 अदद, स्क्रू कील 05 अदद, कील लोहा 10अदद , ड्रिल पेंच छोटा बड़ा 6 अदद, लोहे की पत्तियां 04 अदद, खोखा कारतूस 315 बोर 01 अदद, लकड़ी के गुटके 2 अदद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 यज्ञनारायण भार्गव 2.उ0नि0 यशवन्त सिंह 3.हे0का0 शिवमहन्त मौर्या

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामबाबू लोहार पुत्र कुंवर लोहार उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम लिलवाही कबरई थाना कबरई जिला महोबा







महोबा प्रतिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर प्रतिदिन की भाति जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित-

आज दिनांक 01.11.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र व प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी हर्षिता गंगवार मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।





महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा "यातायात माह नवम्बर-2022" का शुभारंभ किया गया...।

जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुनयोजित तरीके से गतिमान बनाये रखने के उद्देश्य से व आमजनमानस को यातायात नियमों के प्रति सजग/जागरुक किये जाने हेतु आज दिनाँक 01.11.2022 को जिलाधिकारी महोबा श्री मनोज कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह की उपस्थिति में फीता काटकर सुभाष चौकी के समक्ष आयोजित हुये कार्यक्रम "यातयात माह जवम्बर-2022" का शुभारंभ किया गया व मौजूद लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलायी गयी।

जिलाधिकारी महोबा व पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा अपने वक्तव्य में यातायात जागरूकता के सम्बन्ध में मौके पर मौजूद स्कूली छात्रो, सम्मानित समाजसेवियों, पत्रकार बन्धुओं को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए, यातायात सम्बन्धी नियमों के पालन करने के प्रति जागरूक कर नियमों को पालन करने की अपील की गयी साथ ही वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व सीट बेल्ट लगाने की हिदायत भी दी गयी, यह भी बताया गया कि यातायात नियमों के पालन से ही वाहन दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकती है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा बताया गया कि यातायात माह नवम्बर-2022 के दौरान जनपद के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों में यातायात पुलिस व स्वयं सेवी समूहों के सहयोग से नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, निबन्ध लेखन एवं अन्य आयोजनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जायेगा, इसके अतिरिक्त यातायात जागरूकता हेतु जनपदीय यातायात पुलिस द्वारा जनपद में भम्रण कर आमजन को यातायात के नियमों को पालन करने के लिए जागरूक किया जायेगा।



इस कार्यक्रम के अवसर पर विभिन्न समाजसेवियों द्वारा महोबा संस्कृति के अनुरुप/माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी यातायात/नगर, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु, प्रतिसार निरीक्षक, यातायात निरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली महोबा सहित स्कूलों के छात्र, समाजसेवी, पत्रकार बन्धु व पुलिस कर्माचारीगण मौजूद रहे।





महोबा प्रतिस

उत्तर प्रदेश \$112 आपात सेवाएँ

मीडिया सेल, महोबा



जिलाधिकारी महोबा व पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा

संयुक्त रुप से पुलिस कार्यालय में की गयी

जनसूनवाई -

आज दिनांक 01.11.2022 को जिलाधिकारी महोबा श्री मनोज कुमार व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा संयुक्त रुप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनस्नवाई की गई जिसमें लोगों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक स्ना गया...।

इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।





जिलाधिकारी महोबा श्री मनोज कुमार व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना गया...।



महोबा प्रतिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने

वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

प्लिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 01.11.2022 को प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 रमाकान्त शुक्ल द्वारा देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम व शान्ति व्यवस्था, तलाश वाँछित/वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान वारन्टी सम्बन्धित मु0नं0- 29/19, केश नं0 459/18 धारा 363,366,376 D,A 370(3) भादिवं व 4 पाक्सो एक्ट व 3(2) 5क , 3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट अभियुक्त साबिर पुत्र सम्मी निवासी काजीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा उम्र 20 वर्ष को मुहल्ला काजीपुरा से गिरफ्तार करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

साबिर पुत्र सम्मी निवासी काजीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 रमाकान्त शुक्ला प्रभारी चौकी सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
- 2. का0 अंकित दुबे थाना कोतवाली नगर महोबा
- 3. का0 लोकेन्द्र थाना कोतवाली नगर महोबा







महोबा प्रतिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में शांति एंव कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।





आज दिनांक 01.11.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम निकट पर्यवेक्षण में जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रो में संवेदनशील स्थानों पर पैदल गश्त करते हुए स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें,अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार,

धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड,रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 95 ई-चालान किये गये।

















मीडिया सेल, महोबा





